



अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, BHOPAL
Saket Nagar, Bhopal (M.P.) 462020

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस विज्ञप्ति (04 जून 2020)

1. 4 जून 2020 को एम्स, भोपाल के निदेशक प्रो. सरमन सिंह द्वारा विभिन्न सुविधाओं का उद्घाटन कर आमजन को समर्पित किया गया

(अ.) आज सुबह प्रोफेसर सरमन सिंह निदेशक एम्स, भोपाल द्वारा स्वचालित न्यूक्लिक अम्ल निष्कर्षण एवं नमूना तैयार करने की सुविधा का उद्घाटन किया गया। उन्होंने यह सुविधा आमजन को समर्पित करते हुए कहा कि एम्स, भोपाल में इस सुविधा से न केवल नमूना संसाधन एवं जांचने की क्षमता में वृद्धि होगी बल्कि इससे हमारा परिवेश भी सुरक्षित एवं समृद्ध बनेगा। यह सुविधा कोविड-19 महामारी के समय में विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगी क्योंकि इससे एक तरफ तो कोविड-19 को जांचने की क्षमता में वृद्धि होगी तथा दूसरी तरफ इसकी जांच में लगने वाला समय एवं इसमें लगे कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा मिलने के साथ-साथ उनके कार्यभार में भी कमी आएगी। यह स्वचालित सुविधा नमूनों के संसाधन की हस्त चलित प्रक्रिया का स्थान ले लेगी एवं इससे एक सतत प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सकेगी।

(ब.) निदेशक, प्रोफेसर सरमन सिंह द्वारा एम्स, भोपाल में एक कौशल प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया गया। यह समग्र एवं बहु कार्यात्मक कौशल प्रयोगशाला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एक कार्यक्रम नेशनल इमरजेंसी हेल्थ सपोर्ट (एन एल ई एस) के सन 2015-16 के कार्यक्रम पर आधारित है। मध्यप्रदेश शासन ने भी इस विशिष्ट सुविधा हेतु प्रशिक्षण राशि उपलब्ध कराई है। यह कौशल प्रयोगशाला सभी संवर्ग के स्वास्थ्य कर्मियों एवं विद्यार्थियों को आवश्यक जीवन रक्षक कौशल के प्रशिक्षण के उद्देश्य से स्थापित की गई है जिसमें प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों में सामान्य जीवन रक्षा, उन्नत जीवन रक्षा, वायु मार्ग प्रबंधन, परिसंचरण प्रबंधन, सामान्य एवं उन्नत ट्राuma में सहायता सम्मिलित है। इस प्रयोगशाला में स्वास्थ्य कर्मियों को उपरोक्त आवश्यक जीवन रक्षा तकनीकों की एक सुरक्षित, अच्छे से प्रारूपित एवं कार्य क्रमानुसार तैयार किए गए मॉडल पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। एम्स, भोपाल में स्थित इस आधुनिक कौशल प्रयोगशाला में पांच कौशल स्टेशन हैं जो कि दृश्य एवं श्रव्य संचार की सुविधा युक्त हैं इस एवं इनमें प्रशिक्षुओं को जीवंत (लाइव) प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा भी है।

(स.) संस्थान के निदेशक, प्रोफेसर सरमन सिंह ने एम्स, भोपाल के नए प्रशासनिक खंड के निर्माण हेतु भूमि पूजन भी किया। इस बहुमंजिला इमारत में सभी बुनियादी एवं अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। यह कार्य आगामी 14 महीने में लगभग 65 करोड़ की लागत से पूरा किया जाने की उम्मीद है। इस भवन में प्रशासनिक कार्यालय, अभियांत्रिकी विभाग, स्टोर्स, वित्त विभाग, टेलीमेडिसिन एवं परीक्षा अनुभाग इत्यादि के साथ-साथ अन्य संबद्ध सेवाएं एवं सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगे।

2. 04 जून 2020 (08:00 AM) तक कोविड-19 मरीजों की स्थिति रिपोर्ट:-

(अ.) **रोगियों की गणना:** आज दिनांक 04 जून तक एम्स, भोपाल में कोविड-19 के कुल दो सौ तीन (203) रोगियों को भरती किया गया है।

वर्तमान में एम्स, भोपाल में कोविड-19 के बत्तीस (32) मरीज भरती हैं।

एम्स, भोपाल के कोविड-19 वार्ड में दो (02) नये मरीज भरती हुए हैं।

एम्स, भोपाल के कोविड-19 वार्ड में सत्ताईस (27) कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों का उपचार किया जा रहा है। वे क्लीनिकली स्थिर हैं।

कोविड-19 के पांच (05) गंभीर मरीजों को कोविड-19 आई सी यू वार्ड (ICU) में भरती कर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है।

भरती किये गये सभी मरीजों का उपचार निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार किया जा रहा है।

(ब.) **छुट्टी की स्थिति/जानकारी:** आज दिनांक 04 जून तक एम्स, भोपाल से एक सौ अड़तीस (138) कोविड-19 रोगियों को स्वास्थ्य लाभ के उपरांत छुट्टी दी जा चुकी है।

03 जून को भोपाल के रहने वाले पांच (05) कोविड-19 के रोगियों को सफल उपचार के बाद छुट्टी दी गई है। दो रोगियों को निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर घर पर ही आइशोलेशन में रहने की अनुमति दी गई है।

रोगी एवं उसके परिजनों ने एम्स, भोपाल एवं संस्थान के समस्त स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा की गई उचित देखभाल एवं सेवाओं के लिए आभार व्यक्त किया है।

(स.) **मृत्यु की स्थिति/जानकारी:** एम्स, भोपाल में अब तक कोविड-19 से संक्रमित ग्यारह (11) मरीजों की मृत्यु हुई है जिसमें एक रोगी जिसको मृत अवस्था में एम्स, भोपाल में लाया गया था, शामिल है।

पिछले 24 घण्टे में किसी कोविड-19 के रोगी की मृत्यु नहीं हुई है।

3. कोविड-19 की 03 जून (08:00 AM) से 04 जून (08:00 AM) तक की प्रयोगशाला परीक्षण की स्थिति रिपोर्ट:-

आज तक की गई कुल जाँचें	20584
कुल पॉजिटिव	636
कुल जाँच (24 घण्टे)	308
कुल कोविड-19 पॉजिटिव (24 घण्टे)	नए मामले - 20 पुराने मामले - 01
भोपाल जिला (पॉजिटिव)	20
अन्य जिला (पॉजिटिव)	शून्य



(डॉ.लक्ष्मी प्रसाद)
अपर चिकित्सा अधीक्षक एवं
जन सम्पर्क अधिकारी